

HT MEDIA LIMITED

Regd. Office: Hindustan Times House

18-20, Kasturba Gandhi Marg

New Delhi - 110001

Tel.: 66561234 Fax: 66561270

www.hindustantimes.com

E-mail: corporatedept@hindustantimes.com

CIN: L22121DL2002PLC117874

23rd February, 2021 **Ref:** HTML/CS/02/2021

BSE Limited P.J. Towers Dalal Street

MUMBAI - 400 001

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051

Scrip Code: 532662 Trading Symbol: HTMEDIA

Dear Sirs,

Newspaper advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Sub: Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Please find enclosed herewith copy of relevant page of "Mint" (English - all editions) and "Hindustan" (Hindi - Patna, Delhi NCR, Lucknow, Ranchi and Dehradun editions) newspapers published today i.e. 23rd February, 2021 w.r.t. completion of dispatch of notice of Postal ballot electronically, to the eligible members of the Company.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For HT Media Limited

(Dinesh Mittal) **Group General Counsel & Company Secretary**

Encl: As above

MINT SHORTS

Naveen Jindal to invest ₹1,000 cr to expand Jindal Global University

New Delhi: Industrialist Naveen Jindal will invest ₹1,000 crore for expansion of their education venture O.P. Jindal Global University (JGU) in Haryana, the university said Monday. The fresh capital infusion will be utilized for expansion of infrastructure, establishing new departments and other facilities in the university, which has been named as an institute of eminence by the union government. It will catalyse the university's plan to almost double its students' intake and faculty strength. "We will have offices for 1,600 faculty members, housing facilities for more than 12,000 students, a world-class sports centre...totalling an investment of ₹1,000 crore," Jindal said. PRASHANT K. NANDA Read more on livemint.com

Puducherry CM Narayanasamy loses vote of confidence



Puducherry: The Congress-led government in Puducherry on Monday lost the confidence vote sought by chief minister V. Narayanasamy, in the face of its depleted strength of 11 against the opposition's 14 following resignation of ruling dispensation MLAs, including a DMK legislator. Though Narayanasamy moved the motion seeking the confidence vote minutes after the Assembly met for a special one-day session, he and his ruling side MLAs later walked out before the motion was put for voting. Subsequently, speaker V.P. Sivakolundhu declared that the motion stood defeated, even as it was said Narayanasamy was headed to the Raj Nivas, possibly to meet Lt Governor Tamilisai Soundararajan.

Ex-bureaucrat Krishnan named chairman of Shriram Capital board

New Delhi: Shriram Capital Ltd (SCL), the holding company for the financial services and insurance entities of the Shriram Group, on Monday announced that it has appointed K.P. Krishnan, the retired skills and entrepreneurship secretary, as the new chairman on the board of the company. Krishnan, a career bureaucrat has almost three-and-a-half decades of experience with the government as an IAS officer and has served in several positions in the government of India. An FPM (Ph.D.) in economics from IIM Bangalore, Krishnan studied economics from St Stephens College, and law from the Campus Law Centre in Delhi PRASHANT K. NANDA

Read more on livemint.com

Pay-per-view streaming service launched on Vi's Movies & TV app

New Delhi: Mobile operator Vi on Monday introduced pay-perview films on its on Vi Movies and TV app, which can be rented and watched within 48 hours. Some of the top titles currently available are Christopher Nolan's *Tenet* at ₹120, and psychologi cal thriller *Joker*, and superhero flick *Birds of Prey* at ₹60 each. Vi has introduced these movies in a tie-up with Hungama Digital Media Entertainment which operates the Hungama video and audio apps. Calling the PVoD (premium video-on-demand) model a natural extension of its entertainment offerings, Vi said users will be able to watch content at no extra cost apart from basic rentals as per their recharge or post-paid plans. LATA JHA Read more on livemint.com

Sanofi. GSK restart trial of covid vaccine that had faced delays



Sanofi and GlaxoSmithKline Plc are restarting a trial of their covid-19 vaccine, a step forward for a shot that got delayed by a problematic study in the fall. The French drugmaker has corrected the formulation of the shot, which was weaker than planned in the previous trial and failed to create enough of an immune response in people 50 years and older, according to a statement issued on Monday. Assuming results are good for the new second-phase trial—which will include 720 adults in the US, Honduras and Panama the candidate could move on to late-stage studies in the second quarter and become available by the end of the year. **BLOOMBERG**

Goodyear to buy Cooper Tire, nearly doubling China presence

Goodyear Tire & Rubber Co. said it would buy Cooper Tire & Rubber Co. in a \$2.8-billion deal to beef up its portfolio in the high-margin light truck and SUV segments and strengthen its presence in North America and China. The deal, announced on Monday, nearly doubles Goodyear's presence in China and broadens distribution for Cooper replacement tyres through Goodyear's network of 2,500 retail stores in the country. **REUTERS**

Bharat Biotech to release Covaxin efficacy data in two weeks

New Delhi: Bharat Biotech International Ltd will be coming out with the first set of interim efficacy data for Covaxin from its ongoing phase 3 trials in two weeks, chairman and managing director Krishna Ella said. "We moved so fast, but unfortunately we missed the efficacy timepoint. Had we done the (phase) 2/3 combined, we would have captured efficacy faster," Ella said at the BioAsia Summit on Monday.

Read more on livemint.com

SC bars NCLT from giving approval to FRL-RIL deal

The order is a shot in the arm for Amazon, which seeks to stop the ₹24,713 cr deal



Ministry to

develop 1.000

the nation by

bit.ly/2ZGloiZ

utkarsh.anand@hindustantimes.com **NEW DELHI**

he Supreme Court on Monday restrained the National Company Law Tribunal (NCLT) from approving the ₹24,713crore deal between Kishore Biyani's Future Retail Ltd (FRL) and Reliance Industries Ltd (RIL), after Amazon.com Inc. filed a plea before the apex court.

In an interim order in favour of e-commerce giant Amazon, the top court made it clear that the NCLT's Mumbai bench will not pave the way for the FRL-RIL deal even if Future Group holds a meeting of its creditors and shareholders to clear the proposed amalgamation.

The SC bench comprising Justices Rohinton F. Nariman and B.R. Gavai, also issued notices to Future firms and the Bivanis. The matter will be heard after three weeks.

After FRL's proposed merger with RIL was approved by the Competition Commission of India and the Securities and Exchange Board of India (Sebi) had issued a no-objection certificate, the company had approached the Mumbai bench of the NCLT on 26 January.

Monday's SC order comes as a shot in the arm for Amazon, which seeks to stop the FRL-RIL deal, citing the Singapore International Arbitration Centre's (SIAC) interim award in October barring Future Retail from taking any step to sell its

assets or issuing any securities from a restricted party to secure funding. Future Group is caught in a fight between Amazon and Mukesh

Ambani's RIL for domination of the

Indian retail market, which is set to

The Supreme Court bench also issued notices to Future Group companies and the Biyanis.

reach \$1.3 trillion by 2025.

An Amazon spokesperson declined to comment, citing that the matter was sub-judice.

The SC bench also observed that the division bench of the Delhi high court shall not proceed with this case since it has already admitted Amazon's appeal. The case is listed

without giving adequate reasons... It is obvious they (high court) cannot hear it. You (Amazon's lawyers) show them our order," the SC said.

The SC bench was also critical of the high court's 8 February order overturning a previous directive to halt the FRL-RIL deal.

Senior advocates Gopal Subra-

LEGAL BATTLE

that the division

plan was approved by the CCI, the firm had approached the NCLT on 26 January

bench of the Delhi HC's 8 Feb order HC shall not proceed overturning a previous directive with this case

THE SC was also

critical of the Delhi

They also pointed out that the scheme of arrangement for the

Bitcoin falls most in a month after weekend rally

Bloomberg

feedback@livemint.com

itcoin gave up all its gains from weekend trading as analysts questioned whether the cryptocurrency is overheated.

Prices dropped as much as 8.2% during the European session, falling back to around \$53,000. The world's largest cryptocurrency has been on a tear this month, propelled by purchases from Tesla Inc. and institutional investors who say bitcoin is an attractive alternative to gold and the

In February alone, bitcoin is up more than 60%, prompting commentary that the run-up is excessive. The digital token hit a new all-time high on Sunday and came close to surpassing \$59,000.

It's widely believed that volatile weekend swings are driven by individuals trading the cryptocurrency at home. So it's also possible that prices fell on Monday as institutional crypto traders, who follow normal business hours, responded to Elon Musk's Saturday tweet that bitcoin prices "seem high."

"Mostly it is down to a massively long speculative market, combined with Elon Musk saying it looks a bit overdone," said Jeffrey Halley, senior analyst at Oanda

Meanwhile, JPMorgan Chase & Co. strategists have

AFTER the merger **THE** SC observed

FUTURE is caught in a fight between Amazon and RIL for domination of the

> before the high court on Friday. "According to us, this order (of the high court) seems to have decided the main appeal let alone be just the maintainability at the interim stage itself. At the interim stage, you can't vacate a stay order

manium and Ranjit Kumar, appearing for Amazon, sought restoration of status quo on the FRL-RIL deal till all the legal issues are addressed by the apex court.

not required to be stayed. The bench agreed and passed an interim order to the effect that the "NCLT proceedings will be allowed to go on, but will not culminate in a final order on sanction of scheme'

FRL-RIL deal was now awaiting a

nod from the NCLT and sharehold-

ers, and therefore, an interim order

While the SC bench was inclined

to stay all proceedings at the NCLT,

resenting FRL, argued that there

was no possibility of the NCLT

circumstances

passing any final order of

approval under the present

He said even if the meet-

ing to consider the amalga-

mation was to be convened.

it will not happen before six

weeks and, hence, proceed-

ings before the NCLT were

till the matter is decided by the SC.

senior advocate Harish Salve, rep-

of restraint was imperative.

warned about bitcoin's declining liquidity. Strategist Nikolaos Panigirtzoglou wrote in a note on Friday that liquidity for the digital coin was lower than that for the S&P 500 Index and gold, meaning "even small flows can have a large price impact," he wrote.

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY Powai, Mumbai-400 076 Advertisement No. RECT/ADMIN 0002/2021 Indian Institute of Technology Bombay, an Institute of national importance adjudged as Institute of Eminence, invites online application for following position(s) of the post: & Reservation 1 | Senior Technical Officer (Scale-A) Pay Level 12 3 (UR), (Job Ref. No. 50187253) 78800 - 209200) 1 OBC (NCL) For details regarding essential educational qualification, experience general instructions, visit IIT Bombay website https://www.iitb.ac.in/en/careers/staff-recruitment The date of closing of online application interface is 22.03.2021 Date : 23.02.2021 REGISTRAR

CIN: L22121DL2002PLC117874

Registered Office: Hindustan Times House, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001 Tel: +91 11 66561234, Website: www.htmedia.in, E-mail: investor@hindustantimes.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 o the Companies Act, 2013 read with applicable rules, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR") and in accordance with the applicable guidelines/circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs nent of India ("MCA Circulars"), it is proposed to seek approval of members via Postal Ballot process by e-voting only, in respect of businesses as set out in the Postal Ballot Notice dated February 19, 2021 (the "Notice"), circulated to the

In compliance with the MCA Circulars, the Company has completed dispatch of the Notice to the members through e-mail on Monday, February 22, 2021 to those members whose e-mail address is registered with Depository Participant (in case of electronic shareholding)/the Company's Registrar and Transfer Agent (in case of physical shareholding). The detailed procedure/instructions on the process of e-voting, including the manner in which the members who have not vet registered their e-mail address can register the same and/or cast their vote, are specified in the Notice. Members may note that, the Company has additionally enabled a process for the members to register their e-mail address by accessing the link https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx. Other details are as under-

- The cut-off date for the purpose of reckoning voting right and sending the Notice is Friday, February 12, 2021 ("Cut-off date"). Members whose name appears in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting
- The remote e-voting facility shall commence at 9.00 a.m. IST (server time) on Wednesday, February 24, 2021 till 5.00 p.m. IST (Server time) Thursday, March 25, 2021. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by KFin. Once the vote on a resolution is cast by the Member, they shall not be allowed to change it subsequently. Results of Postal Ballot will be declared by the Chairperson & Editoria
- Director or any other person authorised by her, on or before 48 hours from the conclusion of remote e-voting period. The result along with the Scrutinizer's report of Shri Sanket Jain, Practising Company Secretary will be hosted on the Company's website viz. www.htmedia.in and on KFin website viz https://evoting.kfintech.com. The result shall also be intimated to the Stock Exchanges viz. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nsei
- In case of any query/grievance, in respect of e-voting, Members may refer to the Help & FAQs section/E-voting user manual available at the "Downloads" section of KFin's website: https://evoting.kfintech.com/ or contact Shri Rajkumar Kale Senior Manager, KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad 500 032 | Phone No.: +91 40 6716 2222 | Tollfree No.: 1800 345 4001 E-mail: einward.ris@kfintech.com or may write to the Company Secretar at investor@hindustantimes.com

For HT Media Limited Date: February 22, 2021 (Dinesh Mittal) **Group General Counsel & Company Secretary**



Growth is

not just about net gains. It's also gaining knowledge and perspective.

Growth is...On.



Follow us:













क्यूंकि सच्ची सहेली में हैं 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां जो मुश्किल तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे



67) दुर्लभ प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से बना 'सच्ची सहेली' आयुर्वेदिक टॉनिक एवं टेबलेट्स

चिड़चिड़ाप**न**

सोनार बांग्ला बनाएंगे

मोदी ने कहा भाजपा सोनार बांग्ला के

निर्माण के लिए काम करेगी। यहां की संस्कृति मजबूत होगी। ऐसा बंगाल जहां

आस्था, अध्यात्म का सम्मान होगा, जहां

किसी का नहीं होगा। जो टोलाबाजी से

सभी का विकास होगा। तृष्टिकरण

मुक्त और रोजगार से युक्त होगा।

पधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल का

लाभ बंगाल के किसानों को मिल रहा है।

हाल में 100वीं किसान रेल महाराष्ट से

बंगाल तक चलाई गई। इससे यहां के

फल, दध, मछली से जड़े किसानों को

मुंबई, पुणे सहित देश के बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिली है। अब कोलकाता

किसान रेल से फायदा

कमजोरी कमर कटना



प्रधानमंत्री ने हुगली में मां, माटी और मानुष के जरिये ममता सरकार पर निशाना साधा

बगाल बदलाव का मन बना चुका : मोदी



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने बंगाल के दौरे पर ममता बनर्जी सरकार पर जमकर आरोप लगाया। हगली में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी कहा कि अब पश्चिम बंगाल पोरिबर्तन (परिवर्तन) का मन बना चुका है। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए हैं, जिसे जनता अब दोबारा सत्ता नहीं देगी। वहीं, बंगाल की मख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूर ही रहीं।

कई योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा, आप लोगों की यह उमंग, ऊर्जा कोलकाता से दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। आज इस वीर धरा से पश्चिम बंगाल अपने विकास के संकल्प को सिद्ध करने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। हुगली की पश्चिम बंगाल की रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बधाई देता हूं। मोदी बोले कि अब हमें देर नहीं करनी है। एक पल भी गंवाना नहीं है।



पश्चिम बंगाल के हुगली में सोमवार को चुनावी रैली के मंच से समर्थकों का अभिवादन स्वीकारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ● एएनआई

इन योजनाओं को हरी झंडी दिया जा रहा है। बीते साल में हाईवे रेलवे, वाटरवे हर तरह की कनेक्टिविटी

• नोआपाड़ा और दक्षिणेश्वर के बीच मेट्रो सर्विस का उदघाटन और हरी झंडी दिखाकर पहली ट्रेन खाना की।

• दक्षिण-पूर्व रेलवे के 132 किमी लंबे खड़गपुर-आदित्यपुर तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के तहत 30 किमी लंबे ट्रैक

• हावड़ा-बैंडेल-अजीमगंज खंड के तहत अजीमगंज और खारगराघाट रोड के बीच दोहरीकरण का लोकार्पण।

 डानकूनी और बारुईपाड़ा के बीच चौथी लाइन और रसूलपुर और मागरा के

आने-जाने में आसानी हुई है। प्रधानमंत्री ने चुनाव पूर्व खोला खजाना



धेमाजी (असम)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्य असम के लिए सरकारी खजाना खोलते हुए सोमवार को कई योजनाओं का उद्घाटन किया। महीने भर में असम के तीसरे दौरे में 3,222 करोड़

स्थिति भापने में

नाकामयाब रहे

पार्टी नेतृत्व भी पुडुचेरी की स्थिति

को भांपने में विफल रहा। प्रभारी

महासचिव के तौर पर वरिष्ट नेता

मुकुल वासनिक लंबे वक्त तक

पुडुचेरी की जिम्मेदारी संभालते रहें हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता

ने कहा कि प्रभारी महासचिव

रहे थे, इसलिए उनकी जगह

पिछले साल पार्टी नेता दिनेश

गुंडुराव को प्रभारी बनाया गया

था। मुकुल वासनिक कांग्रेस

अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र

शामिल हैं।

लिखने वाले असंतुष्ट नेताओं में

अपनी भूमिका निभाने में सफल

करते हुए मोदी ने सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली सरकार के कामों का जिक्र किया। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, असम की

प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर 45 करोड़ के लागत वाले धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और 55 करोड़ रुपये की लागत वाले सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी।

पीएम कहां किन मुद्दों को तरजीह दे रहे

पांच राज्यों खासकर असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने इन दौरों में स्थानीय और विकास के मुद्दों को उठाकर विपक्षी दलों को घेरा। असम में जहां स्थानीय भाषा और चाय बागवानी तो बंगाल में भ्रष्टाचार और क़ुशासन की बात कही।

असम 🔫

किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक माह में

२३ जनवरी

मूल निवासियों के जरिये साधा

• असम के मूल निवासियों को जमीन का अधिकार मुहैया कराने का मुद्दा उठाया

सामाजिक संरक्षण देने की बात कही • राज्य की संस्कृति, स्वाभिमान और सुरक्षा को प्राथमिकता बताई

• लगभग 70 छोटी बड़ी जनजातियों को

भूमिहीनों को पट्टे की सौगात

• 1.6 लाख भूमि पट्टा वितरण अभियान

- की शुरुआत की, भूमिहीन के लिए • 10 लाभार्थियों को भूमि पट्टे का
- आवंटन प्रमाण पत्र दिया प्रधानमंत्री ने

०७ फरवरी

स्थानीय भाषा का मुद्दा उठाया

- स्थानीय भाषा का मुद्दा उढाया। कहा-हर राज्य में स्थानीय भाषा में शिक्षा महैया कराने वाला कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना सपना
- असम की चाय को विश्व स्तर बनाना व श्रमिकों की जिंदगी बेहतर का जिक्र

9310 करोड की दी सौगात 9,310 करोड़ मूल्य की विभिन्न

मोदी का २ मार्च तक ५

चुनावी राज्यों का दौरा

परियोजनाओं की आधारशिला, राज्य में दो मेडिकल कॉलेज की नींव

डबल इंजन की सरकार

• केंद्र और असम एक ही दल की

सरकार होने के फायदे बताए। कहा–डबल इंजन सरकार तेज से करती है विकास

• सड़क,जल,शिक्षा समेत अन्य मुद्दों पर कहा-पूर्व सरकारों ने राज्य को नजरअंदाज किया

जल व रोड कनेविटविटी पर जोर

 9500 करोड़ की जल व रोड़ कनेक्टिविटी समेत कई परियोजनाओं की सौगात दी

१८ फरवरी

२२ फरवरी

सौतेले व्यवहार का आरोप

 पर्ववर्ती सरकारों पर राज्य के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया

- •पर्यटन, हथकरघा, हस्तशिल्प को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही
- मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए केंद्र की योजनाओं का जिक्र

इंजीनियरिंग कॉलेज तैयार 45 करोड़ की शुरुआती लागत

वाले धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया

पश्चिम बंगाल

२३ जनवरी

म्रष्टाचार को मुद्दा बनाया

• भ्रष्टाचार,कुशासन का मुद्दा उठाकर

ममता बनर्जी सरकार को घेरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक आवास की अनदेखी पर सवाल

नेताजी को अहमियत दी नेताजी की याद में एक स्मारक

सिक्का और डाक टिकट जारी किय

 नेताजी पर आधारित स्थायी प्रदर्शनी प्रोजेक्शन मैपिंग शो का भी उद्घाटन

०७ फरवरी

राजनीति के अपराधीकरण का जिक •ममता सरकार पर प्रहार करते हए आरोप लगाए कि बंगाल में राजनीति का अपराधीकरण हो रहा

आयष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि न लागू करना बुआ-भतीजावाद को बनाया मुद्दा ।

विनिर्माण पर जोर दिया

• ३४८ किलोमीटर की डोभी-दुर्गापुर

पाकतिक गैस पाडपलाइन योजना समर्पित, ४ लेन का रोड ओवरब्रिज

प्रधानमंत्री मोदी का 2 मार्च तक 5 चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे याँ आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री २७ फरवरी को केरल, 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल, 1 मार्च को तमिलनाडु और 2 मार्च को असम का दौरा करेंगे

दक्षिण में कांग्रेस का आखिरी किला भी ढहा

विश्लेषण

नई दिल्ली | **सुहेल हामिद**

पडचेरी में आखिरकार वही हआ जिसका अंदेशा था। कांग्रेस ने दक्षिण में अपनी आखिरी सरकार भी गंवा दी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों के बाद पुडुचेरी में भी विधायकों की बगावत के चलते पार्टी को सरकार खोनी पड़ी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस घटनाक्रम ने पार्टी आलाकमान और निवर्तमान मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के नेतृत्व पर सवाल पर

विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनाव तिथियों का ऐलान कर सकता है। निवर्तमान मुख्यमंत्री नारायणसामी ने भाजपा को सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए चुनाव में मुद्दा बनाने का ऐलान किया है, पर पार्टी के कई नेता उनकी राय से सहमत नहीं है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि

सवाल उठने लाजिमी है।

पुडुचेरी में नारायणसामी का किरण बेदी से टकराव



पर जोर दिया गया। बंगाल में हजारों

करोड रुपये निवेश किए गए। **तष्टिकरण**

की राजनीति : मोदी ने कहा कि बंगाल

के गौरव की अनदेखी के पीछे बहुत बड़ी

राजनीति है। यह राजनीति बंगाल में मां

दुर्गा की पूजा से रोकती है। वोट बैंक की

राजनीति के लिए संस्कृति का अपमान

करने वालों को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने

कहा, मैं बंगाल के लोगों को विश्वास

दिलाता हूं जब भाजपा की सरकार

बनेगी, तो हर बंगालवासी संस्कृति का

लगातार उपराज्यपाल किरण बेदी से सीधा टकराव भी कांग्रेस के खिलाफ गया। तत्कालीन उपराज्यपाल किरण बेदी से झगड़े के चलते पार्टी चुनाव में किए गए कोई भी वादा पूरा करने में नाकाम रही। इनमें सबसे बड़ा वादा मेडिकल कॉलेज में स्थानीय छात्रों का आरक्षण था। कान्ट्रैक्ट टीचरों की नियुक्ति और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मुफ्त चावल देने का वादा भी अधूरा रह गया।

विधानसभा चुनाव में नुकसान की आशंका

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। वर्ष 2016 के चुनाव में विन्नयार जाति ने कांग्रेस का समर्थन किया था। पुडुचेरी में करीब तीस फीसदी आबादी वेन्नियार है। नमःशिवायम् की वजह से विन्नियार जाति कांग्रेस का समर्थन किया था। ऐसे में इस बार विन्नियार जाति का वोट मिलने की उम्मीद नहीं है।

पुडुचेरी में सरकार खोने के लिए भाजपा से ज्यादा खुद कांग्रेस जिम्मेदार है।

2016 में बन गई थी भूमिका : कांग्रेस ने वर्ष 2016 में विधानसभा चुनाव ए नमःशिवायम् के नेतृत्व में

लड़ा था। नमःशिवायम् प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। जीत के बाद उनका मुख्यमंत्री बनना तय था, ज्यादातर विधायक भी उनके साथ थे। पर उस वक्त वी नारायणसामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते नमःशिवायम नंबर दो की हैसियत रखते थे। पर एक साल पहले उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया।

शाह मानहानि मामला मजिस्ट्रेट अदालत को भेजा

कोलकाता। सांसद व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने केंद्रीय गहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को न्यायाधिकार क्षेत्र की वजह से सोमवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को भेज दिया।

शाह के खिलाफ मानहानि का मकदमा तणमल कांगेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने दायर किया है। अदालत ने इससे पहले शाह को समन जारी कर सोमवार को व्यक्तिगत रूप से या वकील के जरिए पेश होने को कहा था। अदालत ने उनके वकील ब्रजेश झा की इस दलील पर संज्ञान लिया कि शाह के जिस पते का उल्लेख किया गया है, वह गलत है। बनर्जी के वकील संजय बस ने कहा कि दो पते अदालत में दिए गए हैं, जिनमें से एक दिल्ली का और दुसरा अहमदाबाद का है। इससे पहले जो पता दिया गया था, वह कोलकाता स्थित भाजपा कार्यालय का था। (एजेंसी)

रुजिरा बनर्जी से सीबीआई की पूछताछ आज संभव

तुणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने सोमवार को सीबीआई के समन का जवाब दिया। कथित कोयला चोरी घोटाले में मंगलवार को अब केंद्रीय एजेंसी पछताछ कर सकती है।

इससे पहले सीबीआई ने रविवार को जांच में शामिल होने के लिए रुजिरा को समन भेजा था। रुजिरा ने सोमवार को समन का जवाब देते हए सीबीआई से मंगलवार को पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन तीन बजे के बीच अपने आवास पर आने को कहा।

उन्होंने सीबीआई को लिखा, हालांकि, मैं इस कारण से अनभिज्ञ हूं कि मुझे पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है या जांच का विषय क्या है. आप अपनी सुविधानुसार 23 आ सकते हैं। आप कब आएंगे कृपया इसकी जानकारी मझे दे दें।



• रुजिरा बनर्जी

रिश्तेदार से ३ घंटे पूछताछ

सीबीआई की एक टीम कोयला चोरी अभिषेक बनजी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर से कोलकाता में उनके सत्रों ने कहा कि सीबीआई की

केंद्रीय बलों की तैनाती सामान्य' **नई दिल्ली।** चुनाव आयोग ने सोमवा

चुनावी राज्यों में

को कहा कि केंद्रीय पुलिस बल विशेष रूप से पश्चिम बंगाल नहीं भेजे जा रहे हैं, बल्कि सभी चुनावी राज्यों में उनकी तैनाती की जा रही है। साथ ही आयोग ने ध्यान दिलाया कि यह कई दशकों से चल रही सामान्य प्रक्रिया है।

चनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय पलिस बल (सीपीएफ) नियमित रूप से उन सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में भेजे जाते हैं जह लोकसभा या विधानसभा चनाव होने हैं। आयोग ने कहा, विशेषकर उन गंभीर और सर्वेदनशील क्षेत्री में जिन्हें सावधानीपूर्वक की गई अग्रिम समीक्षा में चिन्हित किया जाता है और जिनके बारे में राजनीतिक दलों और अन्य इकाइयों सहित विभिन्न स्रोतों से पुख्ता फीडबैक प्राप्त होता है।' चुनाव निकाय कहा कि यह परिपाटी 1980 के दशक से चल रही है।

पुडुचेरी से तमिलनाडु को साधेगी भाजपा

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

विधानसभा चुनावों के ठीक पहले पुड्चेरी में कांग्रेस सरकार के पतन से भाजपा को वहां पर तो लाभ मिलने की स्थिति बनी ही है साथ ही तमिलनाडु में भी वह इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पुडुचेरी की राजनीति काफी हद तक तमिलनाडु से प्रभावित होती है और वहां पर द्रमुक और अन्नाद्रमुक का खासा प्रभाव है। इस घटनाक्रम से द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन को झटका लगा है, जबकि अन्नाद्रमुक-भाजपा गठबंधन को

राहत मिली है। पुडुचेरी में जो स्थितियां हैं उसमें वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना तय माना जा रहा है। ऐसे में वहां की उप राज्यपाल का प्रभार संभाल रही तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुन्दरराजन की भूमिका अहम होगी। सुंदरराजन मूल रूप से तमिलनाडु की है और वह लोगों से सीधा संवाद कर भाजपा की मददगार हो सकती हैं। साथ ही तमिलनाडु के लिए भी एक संदेश दे सकती हैं।

भाजपा नेता ने कहा है कि पुडुचेरी से से ज्यादा महत्वपूर्ण तमिलनाडु है। पुडुचेरी में जिस तरह कांग्रेस और द्रमुक का गठबंधन सरकार बचाने में असफल रहा है उससे तमिलनाडु के लोगों में भी इस गठबंधन को लेकर अविश्वास पैदा होगा। दूसरी तरफ सरकार विरोधी माहौल से जूझ रही अन्नाद्रमुक को इससे राहत मिलेगी,

 दूसरे दलों के नेताओं से तैयार करेगी अपनी राजनीतिक जमीन

• द्रमुक व कांग्रेस को लगे झटके का तमिलनाडु पर असर संभव

क्योंकि भाजपा भी अब उसके गठबंधन में शामिल है। इसलिए दोनो दल विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकते हैं। तमिलनाडु के चुनाव इस बार दोनो प्रमुख दलों द्रमुक और अन्नाद्रमुक के नए नेतृत्व के बीच हो रहे हैं। ऐसे में वहां की जनता के मूड का आकलन कर पाना मुश्किल हो रहा है। भाजपा का सारा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, केंद्र की योजनाओं और अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन में

बने समीकरणों पर टिका हुआ है। हालांकि भाजपा नेता मानते हैं कि सरकार विरोधी माहौल होने पर अन्नाद्रमुक के साथ रहने पर उसे भी नुकसान हो सकता है। हालांकि उनका दावा है कि द्रमुक और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी बहुत ज्यादा उत्साह वाली स्थिति नहीं है। वैसे भी तमिलनाडु के दोनों प्रमुख दलों के बड़े नेता करुणानिधि और जयललिता के निधन के बाद स्थितियां बदली हैं। तमिलनाडु के लोकप्रिय फिल्म स्टार रजनीकांत के भी राजनीति से दूर रहने के फैसले से मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ है। ऐसे में सभी दल अपने

अपने दांव चल रहे हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंबई पवई, मुंबई- 400 076

विज्ञापन सं. भर्ती/प्रशासन 0002/2021 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंबई. राष्ट्रीय महत्व प्राप्त संस्थान को उत्कष्ट संस्थान के रूप में घोषिर गया है। संस्थान निपन्नियतित गर की पिक्सिमें के लिए ऑनलारन आनेरन आगंत्रित करता है

कथा गया हा संस्थान निम्नालाखत पद का तिक्या के लिए जानलाइन जायदन जामात्रत करता हा			
. ≫		वेतन विवरण	रिक्तियाँ तथा
सं.	संदर्भ संख्या	वतन ।ववरण	आरक्षण
1.	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (स्केल-ए)	वेतनस्तर 12	3 रिक्तियाँ (अनारक्षित)
	(नौकरी संदर्भ संख्या : 50187253)	(78800 - 209200)	1 रिक्ति ओ. बी. सी.
			(एन.सी.एल.)

शैक्षिक अर्हता, अनुभव, सामान्य सूचनाओं से संबंधित अन्य जानकारी हेतु, भा. प्रौ. सं. मुंबई की वेबसाइट <u>https://www.iitb.ac.in/en/careers/staff-recruitment</u> देखें। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22.03.2021 है। कुलसचिव दिनांक: 23.02.2021

केन्द्रीय विद्यालय

कमला नेहरू नगर गाजियाबाद - 201002 Website: www.kvknngzb.edu.in E-mail: kvknngzbshift1@gmail.com



Kamla Nehru Nagar 1st Shift Ph.: 0120-2789491

दिनांक: 22.02.2021 तत्काल साक्षात्कार (WALK-in-INTERVIEW)

शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए अंशकालिक अनुबंध के आधार पर सभी विषयों के प्राथमिक प्रशिक्षित स्नातक, स्नातकोत्तर शिक्षक व अन्य शिक्षक - कंप्यटर इंस्टक्टर, स्पोटर्सकोच संगीतकोच, डॉक्टर, नर्स, शैक्षिक काउंसलर, ड्राइंग व आर्ट प्रशिक्षक आदि के तत्काल साक्षात्कार (WALK-IN-INTERVIEW) का आयोजन केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201002 में प्रातः 09.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक किया

Drawing & Arts Coach) व (दिनांक 02.03.2021 को PGT (all subjects), TGT (all subjects) Comp. Instructor, Sports Coach & Yoga) नोटः 1* प्रत्येक पद की विस्तृत योग्यता, RESUME फॉर्मेट एवं वेतन संबंधी जानकारी के लिए विद्यालय वेबसाइट https://ghaziabad.kvs.ac.in/ पर विजिट करें।

प्रतिलिपियां लाना अनिवार्य है। पाचार्य

Kendriya Vidyalaya Ghaziabad, UP-201002

(दिनांक 01.03.2021 को PRT, Nurse, Counselor, Music Coach,

2* साक्षात्कार के समय पूर्ण रिज्यूम, मूल प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के एक सेट की सत्यापित

इंजीनियर्स और केमिस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए पुबल कॅरियर अवसर

200

सहायक अभियंता

(इलेक्ट्रिकल /

मैकेनिकल /



एनटीपीसी को अपने स्टेशनों / परियोजनाओं में शिफ्ट प्रचालन के लिए इंलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / इंस्ट्रयुमेंटेशन विषयक्षेत्रों में 200 अनुमवी सहायक अभियंताओं (ई0 ग्रेड) तथा 30 अनुभवी सहायक केमिस्ट (ई0 ग्रेड) की तलाश है और इसका विवरण निम्नानुसार है: रिक्तियों

संबंधित क्षेत्र में

१ वर्ष (प्रशिक्षण

अवधि के अलावा

ई० ग्रेड ∕ (रू.

30,000-1,20,000)

30,000 / - रू के

इलेक्ट्रॉनिक्स / यदि कोई है) आरंभिक मूल इंस्ट्रयुमेंटेशन) वेतन के साथ सहायक केमिस्ट **आवेदन कैसे करें**: पात्रता मानदंड, अनुभव प्रोफाईल, वेतनमान, आरक्षण और छूट, ऑनलाइन आवेदन आदि के संबंध में विवरण के लिए, उम्मीदवार वेबसाइट

www.ntpccareers.net अथवा www.ntpc.co.in का कॅरियर अनुभाग देख सकते हैं। आवेदन-पत्र के ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ होने की तिथि : 24.02.2021

आवेदन–पत्र के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि : 10.03.2021

एन टी पी सी लिमिटेड एनटीपीसी भवन, कोर 7, स्कोप कॉम्पलेक्स 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 सीआईएन: L40101DL1975GOI007966, वेबसाइट: www.ntpc.co.in

फ़ॉलो करें: 👔 /ntpc1 🕟 /ntpclitd1 💟 /ntpclimited 📊 /company/ntpc 🌀 /ntpclimited 💆 विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

सांसद अभिषेक बनर्जी की

मामले में सोमवार को तृणमूल सांसद आवास पर तीन घंटे पूछताछ की। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की दो महिला अधिकारियों ने उनके खातों के संबंध में जानकारी मांगी। मेनका को रविवार को नोटिस दिया गया था।

एचटी मीडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 फोन: +91-11-66561234, ई-मेल: investor@hindustantimes.com वेबसाइटः www.htmedia.in

सीआईएन: L22121DL2002PLC117874

पोस्टल बैलट की सुचना

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 व 110 के प्रावधानों साथ में पठित प्रयोज्य नियमों. सेबी (लिटिंग ओब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोसर रिक्वायरमेंटस) रेगुलेशंस, 2015 (''सेबी एलओडीआर'') और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रयोज्य दिशा-निर्देशों/परिपत्रों (''एमसीए परिपत्र'') के अनुसरण में, कम्पनी, सदस्यों को प्रसारित पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 19 फरवरी, 2021 (''नोटिस'') में लिखित कारोबारों के संबंध में पोस्टल बैलट प्रक्रिया के माध्यम से (केवल ई-वोटिंग द्वारा) सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, कम्पनी ने सोमवार, 22 फरवरी 2021 को ई-मेल के जरिए नोटिस उन सदस्यों को प्रेषित कर दिया है जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (इलेक्टॉनिक शेयरधारण की स्थिति में)/कम्पनी के पंजीयक तथा हस्तांतरण एजेंट (भौतिक शेयरधारण की स्थिति में) के पास पंजीकृत है। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया/अनदेश तथा वह तरीका नोटिस में निर्दिष्ट है. जिसके माध्यम से वे सदस्य. जिन्होंने अब तक अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं कराया है. वे अपना ई-मेल पता पंजीकत कर सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि कम्पनी ने सदस्यों के लिए उनके ई-मेल पते पंजीकत करवाने के लिए एक अतिरिक्त सविधा दी है जिसका लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx है। अन्य विवरण अधोलिखित हैं:-

 वोटिंग अधिकारों की गणना और नोटिस भेजने के प्रयोजन हेतु कट-ऑफ तिथि, शुक्रवार 12 फरवरी, 2021 ("**कट-ऑफ तिथि**") है। केवल वे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों की पंजिका/लाभैकारी

 रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 24 फरवरी, 2021 को प्रातः 9.00 बजे (सर्वर समय) से शुरू होकर गुरुवार, 25 मार्च, 2021 को सायं 5.00 बजे (सर्वर समय) तक खुली रहेगी। उसके बाद, रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को केफिन द्वारा नियोग्य कर दिया जाएगा। यदि एक बार सदस्य द्वारा रिजोल्यशन पर वोट डाल दिया जाता है तो वह सदस्य बाद में उसे बदलने के लिए अनमत्य नहीं होगा।

पोस्टल बैलट के परिणामों की घोषणा चेयरपर्सन एंड एडिटोरियल डायरेक्टर द्वारा या उनके

द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ई-वोटिंग अवधि के पूरा होने के 48 घंटे या उससे पहले की जाएगी। स्क्रुटिनाइजर, श्री संकेत जैन (प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव) की रिपोर्ट के साथ परिणाम, कम्पनी की वेबसाइट यानी www.htmedia.com तथा केफिन की वेबसाइट यानी https://evoting.kfintech.com पर प्रदर्शित किया जाएगा। परिणाम को स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई व एनएसई की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी सूचित किया जाएगा। ई-वोटिंग के संबंध में कोई पूछताछ/शिकायत होने पर, सदस्य केफिन की वेबसाइटः

https://evoting.kfintech.com के "Downloads" अनुभाग में उपलब्ध Helps & FAQ's Section/E-voting user mannual को देख सकते हैं या श्री राजकुमार काले वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31-32 फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद-500032, फोन नं. +91-40-67162222, टोल फ्री नं.: 1800-345-4001; ई-मेल einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते investor@hindustantimes.com पर कम्पनी सचिव को लिख सकते हैं।

दिनांकः 22 फरवरी,2021

कृते एचटी मीडिया लिमिटेड (दिनेश मित्तल)